



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 36]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 30, 2012/माघ 10, 1933

No. 36]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 2012/MAGHA 10, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2012

स. 8/2012-सीमा-शुल्क (गैटै)

सा.का.नि. 55(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उप-धारा (1) के उप-वाक्य (कक) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना स 12/97-सीमा-शुल्क (गैटै), दिनांक 2 अप्रैल, 1997, जिसे सा का नि 193(अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा —

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या II के समक्ष, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, के कॉलम (3) में मद (XI) के पश्चात् और कॉलम (4) में उनसे संबंधित प्रविष्टि में क्रमशः निम्नलिखित मद और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा —

(3)

(4)

"(XII) तोन्डियार्पेट (टीएनपीएम), चेन्नै

आयातित माल को उतारना और निर्यात माल को लादना"

[फा स 450/113/2011-सी शु-IV]

अभिनव गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पण — प्रधान अधिसूचना स 12/97-सीमा-शुल्क (गैटै), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 को सा का नि 193(अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (1) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना स 60/2011-सीमा-शुल्क (गैटै), दिनांक 24 अगस्त, 2011 के द्वारा सा.का.नि. 638(अ), दिनांक 24 अगस्त, 2011 के तहत किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2012

No. 8/2012-Customs (N.T.)

**G.S.R. 55(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) of Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/97-Customs (N.T.), dated the 2nd April, 1997, published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 193(E), dated the 2nd April, 1997, namely —

In the said notification, in the Table, against serial number 11 relating to the State of Tamil Nadu, in column (3), after item (xi) and the entry relating thereto in column (4), the following item and the entry shall respectively be inserted, namely —

(3)	(4)
(xii) Tondiarpet (TNPM), Chennai	Unloading of imported goods and the loading of export goods."

[F No 450/113/2011-Cus. IV]

ABHINAV GUPTA, Under Secy.

**Note :—**The principal notification No. 12/97-Customs (N.T.), dated the 2nd April, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 193(E), dated the 2nd April, 1997 and was last amended by notification No. 60/2011-Customs (N.T.), dated the 24th August, 2011, vide number G.S.R. 638(E), dated the 24th August, 2011